



मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 (भाद्र 22, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:01 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री गिरीश गौतम) पीठासीन हुए.

1. राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' का समूहगान

सदन की कार्यवाही राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के समूहगान से प्रारम्भ हुई.

2. बधाई

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य को नेता प्रतिपक्ष बनाने की घोषणा एवं बधाई

अध्यक्ष महोदय ने घोषणा की कि मध्यप्रदेश विधान सभा में मुख्य प्रतिपक्षी दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा निर्वाचित विधायक दल के नेता डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य को मेरे द्वारा स्थायी आदेश की कण्डिका 92 (3) की अपेक्षानुसार दिनांक 29 अप्रैल, 2022 को विधिवत् नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है.

आसंदी के साथ-साथ श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, डॉ. नरोत्तम मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री, श्री गोपाल भार्गव, लोक निर्माण मंत्री तथा श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री द्वारा डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य को नेता प्रतिपक्ष बनने पर उन्हें शुभकामनाएं एवं बधाई दी गई.

डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा उन सब के प्रति आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया.

(2) नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू को बधाई एवं शुभकामना

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि श्रीमती द्रोपदी मुर्मू, दिनांक 18 जुलाई, 2022 को हुए राष्ट्रपति निर्वाचन के मतदान पश्चात् दिनांक 21 जुलाई, 2022 को संपन्न मतगणना अनुसार विजयी घोषित हुईं और उन्होंने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में दिनांक 25 जुलाई, 2022 को शपथ ग्रहण की. वे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं तथा पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं.

श्रीमती मुर्मू ने ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद के रूप में अपना राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया. तदनंतर आप ओडिशा विधान सभा की सदस्य निर्वाचित हुईं और राज्य सरकार में विभिन्न विभागों की मंत्री रहीं. श्रीमती मुर्मू ने सन् 2015 से 2021 तक झारखंड के राज्यपाल पद को सुशोभित किया.

एक आदिवासी महिला के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने से पूरा देश गौरवान्वित हुआ. यह प्रसंग भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में रेखांकित किया जाएगा. निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं एवं संस्थाएं और पुष्ट तथा समृद्ध होंगी.

आसंदी द्वारा श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री एवं डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष द्वारा श्रीमती द्रोपदी मुर्मू के राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर सदन एवं मध्यप्रदेश के नागरिकों की ओर से बधाई और शुभकामनाएं दी गई.

4. निधन का उल्लेख.

अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नलिखित के निधन पर सदन की ओर से शोकोदगार व्यक्त किये गये :-

- (1) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (2) श्री कन्हैयालाल दांगी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (3) श्री रणजीत सिंह गुणवान, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (4) श्री शिवमोहन सिंह, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (5) श्रीमती सरोज कुमारी, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (6) श्रीमती गायत्री देवी परमार, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा,
- (7) श्री सुखराम, पूर्व केन्द्रीय मंत्री,
- (8) श्री चक्रधारी सिंह, भूतपूर्व संसद सदस्य,
- (9) ज्योतिमठ बद्दीनाथ और द्वारका-शारदा ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती,
- (10) जम्मू के कुपवाड़ा बार्डर पर दुश्मनों से मुठभेड़ के दौरान शहीद जवान,
- (11) जम्मू के सुजवान सेक्टर में आतंकी हमले में शहीद जवान,
- (12) गुना जिले के आरोन के जंगलों में काले हिरण के शिकारियों से मुठभेड़ में शहीद पुलिसकर्मी,
- (13) उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के डामटा में बस के खाई में गिरने से तीर्थयात्रियों की मृत्यु,
- (14) जम्मू के दुर्गमूला में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवान,
- (15) धार-खरगौन बार्डर पर नर्मदा नदी पर बने खलघाट पुल से यात्री बस गिरने से यात्रियों की मृत्यु, तथा
- (16) भारत-बांग्ला देश सीमा पर उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में शहीद जवान.

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, डॉ. गोविन्द सिंह, नेता प्रतिपक्ष, श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति एवं डॉ. अशोक मर्सकोले, सदस्यगण द्वारा शोकोदगार व्यक्त किये गये.

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की गई. सदन द्वारा 2 मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की गई.

तत्पश्चात् दिवंगतों के सम्मान में अपराह्न 12.02 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 14 सितम्बर, 2022 (23 भाद्र, शक सम्वत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भोपाल:
दिनांक: 13 सितम्बर, 2022.

ए. पी. सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.